



(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE)

PLADA INFOTECH SERVICES LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Plada Infotech Services Private Limited" as a private limited company under the provision of Companies Act, 1956 pursuant to a Certificate of Incorporation dated October 23, 2010 bearing registration number 209364 issued by Registrar of Companies, Mumbai. Thereafter, our Company was converted into a Public Limited Company and consequently the name of our Company was changed from "Plada Infotech Services Private Limited" to "Plada Infotech Services Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated May 11, 2023 issued by the Registrar of Companies. The Corporate Identification Number of our Company is: U72900MH2010PLC209364. For further details please refer to section titled "History and Corporate Structure" beginning on page 150 of the Prospectus dated September 22, 2023, filed with Registrar of Companies (ROC).

Registered office and Corporate Office: Santosh A. Mishra Compound, Mograpada, Mogra Village, off. Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra - 400069 India.

Tel: +91 897696702; **E-mail:** Abhishek.jain@pladainfotech.com; **Website:** https://pladainfotech.com/; **CIN:** U72900MH2010PLC209364; **Contact Person:** Mr. Abhishek Jain, Company Secretary and Compliance Officer



(Please scan this QR Code to view the RHP and Abridged Prospectus)

OUR PROMOTERS: MR. SHAILESH KUMAR DAMANI AND MR. ANILMAHENDRA KOTAK.

OUR COMPANY HAS FILED THE PROSPECTUS WITH THE ROC ON SEPTEMBER 23, 2023 AND THE TRADING WILL COMMENCE ON FRIDAY, OCTOBER 13, 2023.

THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY PROPOSED TO GET LISTED ON SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE EMERGE")

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 25,74,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF PLADA INFOTECH SERVICES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "PLADA" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 48/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹1,235.52 LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 1,29,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 48/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 61.92 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 24,45,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 48/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 1,173.60 LAKHS IS

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/-; THE ISSUE PRICE IS ₹ 48/- PER EQUITY SHARE; THE ISSUE PRICE IS 4.8 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

1. Our failure to perform in accordance with the standards prescribed in our client contracts could result in loss of business or payment of liquidated damages.

2. Uncertainty of Client Commitment and Potential Contract Termination.

3. The merchant banker associated with this issue has handled only 4 public issues in the past out of which no issue has closed below issue price on listing date.

4. Average cost of acquisition of the Promoters:

Sr. No.	Name	No. of Shares	Average Cost of Acquisition
1	Shailesh Kumar Damani	50,70,394	0.02
2	Anil Mahendra kotak	3,00,000	0.02

And the issue price is ₹48/- per equity share.

5. the Price Earnings ratio based on diluted EPS for Fiscal 2023 for the Company is 12.31

6. Weighted Average Return on Networth for Fiscal 2023, 2022 and 2021 is 25.28%

7. The Weighted average cost of acquisition compared to issue price:

Types of Transaction	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Issue price* (i.e. ₹ 48)
WACA of Primary Issuance (excluding for shares issued pursuant to ESOP and bonus issue) (exceeding 5% of the pre issue fully diluted paid-up share capital during the 18 months preceding the date of Prospectus) in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.	NA	NA

Risk to Investors:

Types of Transaction	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Issue price* (i.e. ₹ 48)
WACA of Secondary Sale/ acquisition (excluding gifts) (exceeding 5% of the pre issue fully diluted paid-up share capital during the 18 months preceding the date of Prospectus) in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.	11.50	48.00
Since there were no secondary transactions of equity shares of our Company during the 18 months preceding the date of filing of this Prospectus, which are equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of our Company, the information has been disclosed for price per share of our Company based on the last five secondary transactions where Promoters / promoter group entities having the right to nominate director(s) on our Board, are a party to the transaction, not older than three years prior to the date of filing of this Prospectus irrespective of the size of the transaction.	NA	NA

****Post adjustment of bonus shares**

8. This being the first Public Offer of our Company, there has been no formal market for the Equity Shares. The face value of the Equity Shares is ₹10/- each. The Issue Price of ₹48/- per equity share (determined and justified by our Company in consultation with the Lead Manager as stated in "Basis for Issue Price" on page 101 of this Prospectus) should not be considered to be indicative of the market price of the Equity Shares after the Equity Shares are listed. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the Equity Shares or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

ISSUE PERIOD

ISSUE OPENED ON: FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023

ISSUE CLOSED ON: THURSDAY, OCTOBER 05, 2023

PROPOSED LISTING: FRIDAY, OCTOBER 13, 2023

The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"/"NSE"), in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval letter dated September 21, 2023 from NSE for using its name in the Prospectus for listing of our shares on NSE EMERGE. It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of the NSE Emerge of NSE" on page 271 of the Prospectus. For the purpose of this issue, the Designated Stock Exchange will be the NSE. The trading is proposed to be commenced on or about October 13, 2023 (subject to receipt of listing and trading approval from the NSE).

All investors have participated in this issue through APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") process including through Unified Payment Interface ("UPI") mode (as applicable) in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs") / Sponsor Bank as the case may be.

TRACK RECORD OF THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER: THE MERCHANT BANKER ASSOCIATED WITH THE ISSUE HAS HANDLED 3 SME PUBLIC ISSUE AND 1 MAIN BOARD PUBLIC ISSUE IN THE PAST THREE YEARS.

The Issue was made through the Fixed Price Process, in terms of Rule 19 (2) (b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 and 253 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") wherein minimum 50% of the Issue was made available to Retail Individual Investors and remaining to individual applicants other than retail individual investors; and Other investors including corporate bodies or institutions, irrespective of the number of specified securities applied for. All potential Applicants were required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective bank account (including UPI ID for RILs using UPI Mechanism), in which the corresponding Application Amounts were blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank, as applicable. For details, see "Issue Procedure" on page 287 of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to NSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the NSE. The trading is proposed to be commenced on or about October 13, 2023*.

*Subject to the receipt of listing and trading approval from the NSE.

SUBSCRIPTION DETAILS				
The Issue received 33,202 Applications for 13,93,23,000 Equity Shares (before rejections) resulting in 54.13 times subscription (including reserved portion of market maker). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under (before rejections):				
Detail of the Applications Received (after bids not banked cases but before rejections):				
The details of the applications received in the issue (before removing Valid and Multiple Rejections and Bids banked but not registered) are as follows:				
Category	Number of Applications	Number of Equity Shares applied	Number of Equity Shares reserved as per Prospectus	Number of times subscribed
Retail Individual Investors*	30,170	9,05,10,000	12,22,500	74.04
Non-Retail Investors	3,031	4,86,84,000	12,22,500	39.82
Market Maker	1	1,29,000	1,29,000	1.00
TOTAL	33,202	13,93,23,000	25,74,000	54.13

*This includes 26 applications for 78,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

The details of applications rejected by the Registrar on grounds (including withdrawal) are detailed below:

Category	No. of applicants	No. of Equity Shares
Retail Individual Investors	628	18,84,000
Non-Institutional Bidders	51	3,72,000
Market Maker	-	-
TOTAL	679	22,56,000

After eliminating rejected applications, the following table gives us category wise net applications:

Category	Number of Applications	Number of Equity Shares applied	Number of Equity Shares reserved as per Prospectus	Number of times subscribed
Retail Individual Investors	29,542	8,86,26,000	12,22,500	72.50
Non-Institutional Bidders	2,980	4,83,12,000	12,22,500	39.52
Market Maker	1	1,29,000	1,29,000	1.00
TOTAL	32,523	13,70,67,000	25,74,000	53.25

In order to allocate equity shares on proportionate basis and in multiples of 3,000 Equity shares, the allocation to Retail Individual Investors has been increased to 15,84,000 equity shares. Accordingly, the allocation to Non-Retail Investors has been reduced to 8,61,000 equity shares.

As per Regulation 253 (2) of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended, as present issue is a fixed price issue, if retail individual investor category is entitled to more than fifty percent of the Issue size on proportionate basis, accordingly the retail individual investors shall be allocated that higher percentage.

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange – NSE on October 10, 2023

• **Allocation to Market Maker (After Rejection & Withdrawal):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹ 48/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed 1.0 time. The total number of shares allotted in this category is 1,29,000 Equity Shares to 1 successful applicant.

BASIS OF ALLOCATION - Market Maker												
NAME OF THE COMPANY: Plada Infotech Services Limited												
Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1,29,000	1	100.00	1,29,000	100.00	1,29,000	1,29,000	1,29,000	1	1	1,29,000	0
GRAND TOTAL	1	100.00	1,29,000	100.00	1,29,000				1	100.00	1,29,000	0

• **Allocation to Retail Individual Investors (After Rejections & Withdrawal):** Allocation to the Retail Individual Investor (after rejections), at the Issue Price of ₹ 48/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category (based on proportionate basis) was subscribed by 55.95 times. The total number of shares allotted in this category is 15,84,000 Equity Shares to 528 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

BASIS OF ALLOCATION - RETAIL CATEGORY												
Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	3,000	29,542	100.00	8,86,26,000	100.00	15,84,000	53.62	3,000	1	56	528	100.00
GRAND TOTAL	29,542	100.00	8,86,26,000	100.00	15,84,000				528	100.00	15,84,000	0

• **Allocation to Non-Institutional Investors (After Rejections):** The Basis of Allotment to Non-Institutional Investors, at the issue price of ₹ 48/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 56.11 times. The total number of shares allotted in this category is 8,16,000 Equity Shares to 288 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

BASIS OF ALLOCATION - HNI CATEGORY												
Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	6000	2152	72.22	12912000	26.73	230113	106.93	3000	19	531	77	33.62
2	9000	228	7.65	2052000	4.25	36570	160.39	3000	1	19	12	5.24

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	12000	96	3.22	1152000	2.38	20531	213.86	3000	7	96	7	3.06	21000	2.44	469
4	15000	69	2.32	1035000	2.14	18445	267.32	3000	2	23	6	2.62	18000	2.09	-445
5	18000	53	1.78	954000	1.97	17002	320.79	3000	6	53	6	2.62	18000	2.09	998
6	21000	111	3.73	2331000	4.82	41542	374.25	3000	14	111	14	6.11	42000	4.87	458
7	24000	42	1.41	1008000	2.09	17964	427.71	3000	1	7	6	2.62	18000	2.09	36
8	27000	19	0.64	513000	1.06	9142	481.21	3000	3	19	3	1.31	9000	1.05	-142
9	30000	34	1.14	1020000	2.11	18178	534.65	3000	3	17	6	2.62	18000	2.09	-178
10	33000	14	0.47	462000	0.96	8234	588.14	3000	3	14	3	1.31	9000	1.05	766
11	36000	7	0.23	252000	0.52	4491	641.57	3000	1	7	1	0.44	3000	0.35	-1491
12	39000	4	0.13	156000	0.32	2780	695	3000	1	4	1	0.44	3000	0.35	220
13	42000	19	0.64	798000	1.65	14222	748.53	3000	5	19	5	2.18	15000	1.74	778
14	45000	7	0.23	315000	0.65	5614	802	3000	2	7	2	0.87	6000	0.70	386
15	48000	10	0.34	480000	0.99	8554	855.4	3000	3	10	3	1.31	9000	1.05	446
16	51000	4	0.13	204000	0.42	3636	909	3000	1	4	1	0.44	3000	0.35	-636
17	54000	3	0.10	162000	0.34	2887	962.33	3000	1	3	1	0.44	3000	0.35	113
18	60000	12	0.40	720000	1.49	12832	1069.33	3000	1	3	4	1.75	12000	1.39	-832
19	63000	6	0.20	378000	0.78	6737	1122.83	3000	1	3	2	0.87	6000	0.70	-737
20	66000	2	0.07	132000	0.27	2352	1176	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	648
21	69000	1	0.03	69000	0.14	1230	1230	3000	0	0	0	0.00	0	0.00	-1230
22	72000	2	0.07	144000	0.30	2566	1283	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	434
23	75000	6	0.20	450000	0.93	8020	1336.67	3000	1	2	3	1.31	9000	1.05	980
24	78000	1	0.03	78000	0.16	1390	1390	3000	0	0	0	0.00	0	0.00	-1390
25	81000	2	0.07	162000	0.34	2887	1443.5	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	113
26	84000	2	0.07	168000	0.35	2994	1497	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	6
27	87000	1	0.03	87000	0.18	1550	1550	3000	0	0	0	0.44	0	0.00	-1550
28	90000	6	0.20	540000	1.12	9624	1604	3000	1	2	3	1.31	9000	1.05	-624
29	93000	1	0.03	93000	0.19	1657	1657	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	1343
30	96000	2	0.07	192000	0.40	3422	1711	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	-422
31	99000	1	0.03	99000	0.20	1764	1764	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	1236
32	102000	1	0.03	102000	0.21	1818	1818	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	1182
33	105000	4	0.13	420000	0.87	7485	1871.25	3000	1	2	2	0.87	6000	0.70	-1485
34	108000	1	0.03	108000	0.22	1925	1925	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	1075
35	114000	2	0.07	228000	0.47	4063	2031.5	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	-1063
36	117000	3	0.10	351000	0.73	6255	2085	3000	2	3	2	0.87	6000	0.70	-255
37	120000	6	0.20	720000	1.49	12832	2136.67	3000	2	3	4	1.75	12000	1.39	-832
38	123000	2	0.07	246000	0.51	4384	2192	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	-1384
39	126000	4	0.13	504000	1.04	8982	2245.5	3000	3	4	3	1.31	9000	1.05	18
40	132000	1	0.03	132000	0.27	2352	2352	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	648
41	135000	1	0.03	135000	0.28	2406	2406	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	594
42	138000	2	0.07	276000	0.57	4919	2459.5	3000	1	1	2	0.87	6000	0.70	1081
43	141000	1	0.03	141000	0.29	2513	2513	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	487
44	147000	1	0.03	147000	0.30	2620	2620	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	380
45	150000	3	0.10	450000	0.93	8020	2673.33	3000	1	1	3	1.31	9000	1.05	980
46	153000	2	0.07	306000	0.63	5453	2726.5	3000	1	1	2	0.87	6000	0.70	547
47	156000	2	0.07	312000	0.65	5560	2780	3000	1	1	2	0.87	6000	0.70	440
48	165000	1	0.03	165000	0.34	2941	2941	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	59
49	171000	1	0.03	171000	0.35	3047	3048	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	-47
50	174000	2	0.07	348000	0.72	6202	3101	3000	1	1	2	0.87	6000	0.70	-202
51	177000	1	0.03	177000	0.37	3154	3154	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	-154
52	180000	1	0.03	180000	0.37	3208	3208	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	-208
53	186000	2	0.07	372000	0.77	6630	3315	3000	1	1	2	0.87	6000	0.70	-630
54	243000	1	0.03	243000	0.50	4331	4331	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	-1331
55	270000	2	0.07	540000	1.12	9624	4812	3000	1	1	2	0.87	6000	0.70	-3624
	270000		0.00		0.00			3000	1	2		0.00	3000	0.35	3000
56	300000	4	0.13	1200000	2.48	21386	5346.5	3000	1	1	4	1.75	12000	1.39	-9386
	300000		0.00		0.00			3000	3	4		0.00	9000	1.05	9000
57	315000	1	0.03	315000	0.65	5614	5614	6000	1	1	1	0.44	6000	0.70	386
58	330000	1	0.03	330000	0.68	5881	5881	6000	1	1	1	0.44	6000	0.70	119
59	456000	1	0.03	456000	0.94	8127	8127	9000	1	1	1	0.44	9000	1.05	873
60	483000	1	0.03	483000	1.00	8608	8608	9000	1	1	1	0.44	9000	1.05	392
61	600000	1	0.03	600000	1.24	10693	10693	12000	1	1	1	0.44	12000	1.39	1307
62	630000	1	0.03	630000	1.30	11228	11228	12000	1	1	1	0.44	12000	1.39	772

...continued from previous page.

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
63	753000	2	0.07	1506000	3.12	26839	13419.5	12000	1	1	2	0.87	24000	2.79	-2839
	753000		0.00		0.00			3000	1	2		0.00	3000	0.35	3000
64	759000	1	0.03	759000	1.57	13527	13527	12000	1	1	1	0.44	12000	1.39	-1527
65	1251000	1	0.03	1251000	2.59	22295	22295	21000	1	1	1	0.44	21000	2.44	-1295
66	2445000	2	0.07	4890000	10.12	87148	43574	42000	1	1	2	0.87	84000	9.75	-3148
	2445000		0.00		0.00			3000	1	2		0.00	3000	0.35	3000
GRAND TOTAL		2980	100.00	48312000	100.00	861000					228	100.00	861000	100.00	0

October 11, 2023. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The company is in process of obtaining the listing and trading approval from NSE and the trading of the Equity Shares is expected to commence On or about Friday, October 13, 2023.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated September 22, 2023 filed with the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai (RoC").

CORRIGENDUM-NOTICE TO INVESTORS

This corrigendum is with reference to the Prospectus dated September 22, 2023 filed with RoC in relation to the Issue. In this regard, please note the following:
In Material Contracts under the chapter "MATERIAL CONTRACTS AND DOCUMENTS FOR INSPECTION" on page 362 of the Prospectus, the statement with read as "4. Market Making Agreement dated July 20, 2023 executed between our Company, Lead Manager and Market Maker."
"7. Tripartite Agreement dated May 23, 2023 among NSDL, the Company and the Registrar to the Issue."
The Prospectus shall read in conjunction with this Corrigendum. The information in this corrigendum supersedes the information provided in the Prospectus to the extent inconsistent with the information in the Prospectus. The Prospectus stands amended to the extent stated hereinabove.
All capitalised terms used in this Corrigendum shall unless the context requires, have the same meaning as ascribed in the Prospectus.

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Service Private Limited at website: www.bigshareonline.com
All future correspondence in this regard may be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Private Applicant serial number of the ASBA form, number of Equity Shares applied for, Applicant DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Application Form, address of the Applicant, the name and address of the Designated Intermediary where the Application Form was submitted by the Applicant and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:



BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Address: S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, next to Ahura Centre, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India
Tel No.: +91 – 22 – 6263 8200; Fax No.: +91 – 22 – 6263 8299; E-mail: ipo@bigshareonline.com; Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com;
Website: www.bigshareonline.com; CIN: U99999MH1994PTC076534; SEBI Registration No: INR00001385; Contact Person: Mr. Vinayak Morbale

Place: Mumbai

Date: October 11, 2023

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF PLADA INFOTECH SERVICES LIMITED.

Disclaimer: Plada Infotech Services Limited has filed the Prospectus with the RoC on September 23, 2023 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Prospectus is available on the website of SME Platform of NSE at <https://www.nseindia.com/> and on the websites of the Lead Manager, Indorient Financial Services Limited at www.indorient.in. Investors should note that investment in Equity Shares have a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" beginning on page 25 of the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

CONCEPT

ASHIANA HOUSING LTD.

CIN: L70109WB1986PLC040864

Regd. Off. : 5F, Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata – 700 071
Head Off. : Unit No. 4 & 5, Illrd Floor, Southern Park, Plot No. D-2 Saket Residential, New Delhi -110 017
Website: www.ashianahousing.com
Email: investorrelations@ashianahousing.com

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all concerned that the company has received request along with necessary indemnity bond and affidavit from the shareholder(s) of the company to issue duplicate share certificate in lieu of the lost share certificate, details of which is given herein below:

Sl. No.	Name of Regd. Shareholder	L. F. No.	Share Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares
1.	Manoj Kumar	0008918	1785	3312251-3314000	1,750

Since the company is in the process of issuing duplicate share certificate, any person who has objection on such issue, may lodge his objection within 15 days from the date of appearance of this advertisement to the company or its Registrar M/s. Beetal Finance & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi-110 062.

For Ashiana Housing Ltd.
Sd/-
Nitin Sharma
(Company Secretary)

Place : New Delhi
Date : 11th October, 2023

NOTICE OF SALE OF ASSETS OF M/s. COX & KINGS LIMITED (IN LIQUIDATION)

Registered Office: Unit No. 313, 3rd Floor, Turl Estate, Mahalaxmi, Mumbai 400011
Administrative Office: Turl Estate, Unit No. 48, A-Wing 4th floor, Sun Mill Compound, Above Post office, Lower Parel (W), Mumbai 400013
Liquidator: Mr. Ashutosh Agarwala
Address for Correspondence: Peninsula Business Park, Tower B, 19th Floor, Lower Parel, Mumbai 400013. Email ID: ip.coxandkings@excetador.com

E-Auction for Sale of Assets of Cox & Kings Limited Under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
Date and Time of Auction : 8th November, 2023 from 2.00 PM to 4.00 PM
(With unlimited extension of 5 minutes each)

Notice for sale of Assets of M/s. Cox & Kings Limited -in Liquidation ("Company") by the Liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench vide order dated 16th December 2021. The sale of Assets will be done by the Liquidator on E-Auction Platform on the portal (<https://www.eauctions.co.in>) of M/s Linkstar Infosys Private Limited.

Lot	Description of Assets	Reserve Price in INR (Assets for Sale)	Earnest Money Deposit (EMD) in INR
1.	Sale of M/s Cox & Kings Limited –in Liquidation ("Company") as a Going Concern	Rs. 16.74 crores	Rs. 33.48 Lacs
2.	Sale of Trade Receivables of M/s Cox & Kings Limited outstanding as on 10th October, 2023 collectively as a set of Assets.	Rs. 8.34 crores	Rs. 8.34 Lacs
3.	Sale of Trademarks & Domains Names of M/s Cox & Kings Limited collectively as a set of Assets	Rs. 18.81 crores	Rs. 37.62 Lacs
4.	Sale of each of the Paintings & Artefacts of M/s Cox & Kings Limited as an individual Asset on standalone basis.	Rs. 1.013 crores (Aggregate Reserve Price)	Rs. 10.13 Lacs (Aggregate EMD)

The sale of Assets is grouped in 4 (four) Lots and the Eligible Bidders may Bid for each individual lot or for multiple lots. Additionally, in case of Lot No. 4 of Paintings and Artefacts, the Eligible Bidders may Bid for one (1) item or any combination of multiple items.

Terms and Condition of the E-Auction are as under:

- E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS" basis. As such sale of the Assets of the Company is without any recourse or any kind of warranties and indemnities and is being conducted through approved E-Auction Service Provider M/s Linkstar Infosys Private Limited.
- The complete E-Auction Process Document containing overview of the Assets of the Company along with Eligibility Documents and other supporting documents to be submitted by the Bidders including General Terms and Conditions of the E-Auction Process and the technical procedure for submission of Bids are available on website of the Company (<https://www.coxandkings.com/liquidation-process/>) and the website of the E-Auction Service Provider (<https://www.eauctions.co.in/>).
- The Qualified Bidders will be identified by the Liquidator and only the Qualified Bidders can participate in E-Auction Process on the E-Auction Platform (<https://www.eauctions.co.in/>) after payment of Earnest Money Deposit (EMD). The E-Auction Service Provider (M/s Linkstar Infosys Private Limited) will provide User ID and Password by email to the Qualified Bidders on registration at the E-Auction Platform.
- The Qualified Bidders, prior to submitting their Bid, should make their independent inquiries regarding the Company, Assets, Claims and Liabilities, Commercial and Financial Commitments, Operational and Maintenance charges, and other Recurring and Incidental business costs, if any, at their own expense and satisfy themselves.
- The Successful Bidder shall be responsible for the applicable stamp duties, legal costs, transfer charges and fees, GST or any other taxes related to the sale of Assets under this E-Auction and for completing the documentation and obtaining the permissions relating to the sale of Assets of the Company and sale of Company as a going concern.
- The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and related regulations. For the sale of Company as a going concern, the Liquidator/ Successful Bidder would be mandatorily required to approach to Hon'ble NCLT, Mumbai Bench for suitable orders in accordance with the E-Auction Process Document.
- The Liquidator has the absolute right to accept or reject or modify any or all the Bids or adjourn/postpone/cancel the E Auction at any stage without assigning any reason therefor.

Ashutosh Agarwala, Liquidator
On behalf of Cox & Kings Limited
IBBI Registration No. : IBBI/PA-001/IP-061123/2018-2019/11901
IBBI Registered Off.: D-1005, Ashok Towers, Dr. S. S. Rao Road, Parel, Mumbai City, Maharashtra – 400012.
Place: Mumbai
Date: 12th October, 2023



ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED

(CIN: L67200MH2000PLC129408)

Registered Office: ICICI Lombard House, 414, Veer Savarkar Marg, Near Siddhivinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai-400 025, Tel.: 022 6196 1100
Email: investors@icicilombard.com; Website: www.icicilombard.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 and other applicable provisions of, any of the Companies Act, 2013, (the Act) read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and the Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as amended from time to time and in accordance with the requirements prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 8, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars"), to transact the special business as set out hereunder by passing Ordinary Resolution by way of postal ballot only by voting through electronic means (remote e-voting):

Appointment of Mr. Sanjeev Mantri (DIN: 07192264) as the Managing Director & Chief Executive Officer ("MD & CEO") of the Company

In this regard and in compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Company has completed dispatch of Notice on **Wednesday, October 11, 2023** through electronic mode to those Members whose names appeared in the Register of Members/ Registered or Beneficial Owners maintained by National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") ("the Depositories") as on **Friday, October 6, 2023** ("Cut-off Date") and whose e-mail address is registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent/ Depositories, as on said date.

The Notice of Postal Ballot ("Notice") is available on the website of the Company at www.icicilombard.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. BSE Limited ("BSE") and The National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. A copy of the same is also available on the website of KFin Technologies Limited ("KFinTech") (agency for providing the remote e-voting facility) at <https://evoting.kfintech.com>

Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope has not been sent to the Members for this Postal Ballot.

The remote e-voting period commences on **Thursday, October 12, 2023 at 9:00 a.m. (IST)** and shall end on **Friday, November 10, 2023 at 5:00 p.m. (IST)**. The remote e-voting mode shall be disabled by KFinTech thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off date. Once vote on a resolution is cast, the Member will not be able to change it subsequently. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the List of Beneficial Owners as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting.

The Members of the Company are requested to kindly note the following:

- Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/ update their KYC details including e-mail address with the relevant Depository Participants ("DPs").
- Members holding shares in physical form are requested to register/ update their KYC details including email address by submitting duly filled and signed Form ISR-1 to the RTA along with the copy of the share certificate (front and back), self-attested copy of the PAN card and such other documents as prescribed in the Form. Form ISR-1 is available on the website of the Company and RTA.

In case of any queries with respect to voting by means of Postal Ballot including e-voting, you may please visit the "Help and FAQ's" section available on KFinTech website (<https://evoting.kfintech.com>) or send email to evoting@kfintech.com for further clarifications.

The Board of Directors of the Company has appointed Parikh & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot e-voting process in a fair and transparent manner. Mr. P. N. Parikh (FCS 327) or failing him, Mr. Mitesh Dhabliwala (FCS 8331) of Parikh & Associates, Company Secretaries will represent Parikh & Associates, Company Secretaries.

After completion of scrutiny of the votes cast, the Scrutiniser will submit his report to the Chairperson of the Company or any other person authorised by him. The results of the Postal Ballot conducted through remote e-voting along with the Scrutiniser's Report will be made available on the website of the Company at www.icicilombard.com, the website of KFinTech at <https://evoting.kfintech.com> and shall also be communicated to BSE and NSE on their respective websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com, where the equity shares of the Company are listed within the stipulated timelines. The results will also be placed on the Notice Board at the Registered Office of the Company.

For ICICI Lombard General Insurance Company Limited

Sd/-
Vikas Mehra
Company Secretary

Mumbai

October 11, 2023

ICICI trade logo displayed above belongs to ICICI Bank and is used by ICICI Lombard GIC Ltd. under license and Lombard logo belongs to ICICI Lombard GIC Ltd. ICICI Lombard General Insurance Company Limited, ICICI Lombard House, 414, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025. IRDA Reg.No.115. Toll Free 1800 2666. Fax No - 022 61961323. CIN (L67200MH2000PLC129408). customersupport@icicilombard.com; www.icicilombard.com. ADV/18913

NATIONAL STANDARD (INDIA) LIMITED

CIN: L27109MH1962PLC265959

Regd. Office: 412, Floor-4, 17G, Vardhaman Chamber, Cawasji Patel Road, Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400 001 Tel.: 912267737373 Fax: +91223024420
Website: www.nsdl.net.in E-mail: investors.nsdl@lodhagroup.com

EXTRACTS OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTH ENDED 30-SEPTEMBER-2023

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended 30-Sep-23 (Unaudited)	Six Month Ended 30-Sep-23 (Unaudited)	For the year ended 31-Mar-23 (Audited)
1	Total Income from Operations	465.91	349.17	924.62
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	382.93	129.80	765.53
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	382.93	129.80	765.53
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	280.45	77.02	560.16
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	280.45	77.02	560.16
6	Equity share capital (Face Value of ₹10 each)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			22,439.87
8	Earnings Per Share (Face Value of ₹10 each) (not annualised) Basic and Diluted	1.40	0.39	2.80

NOTE
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.nsdl.net.in.

For and on behalf of the Board of Directors of National Standard (India) Limited
Sd/-
Smrita Ghag
Director
Place : Mumbai
Date : 11-October-2023
DIN: 02447362

FOR DAILY BUSINESS.

FINANCIAL EXPRESS

THE BUSINESS DAILY.

TAMILNADU INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

NO.19-A, RUKMINI LAKSHMIAPATHI ROAD, EGMORE, CHENNAI – 600 008
Phone: +91-4428554479, 28554480 | Website: <http://tildco.com>

NOTICE NO. TIDCO/EoI-01/2023, TIDCO/EoI-02/2023 Date: 12.10.2023

Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd (TIDCO), has proposed to establish Industrial Parks in the following locations:

Name of the Location	Taluk	District	Extent
Varapatti Village	Sulur	Coimbatore	350 Acres (approx)
Karani Village	Gummidipoondi	Tiruvallur	250 Acres (approx)

TIDCO invites interested firms to submit their requirement for industrial plots in these Park within two weeks to enable TIDCO to create a suitable master plan.
Interested firms can access the EoI at website <http://tildco.com>, www.tndefensecorridor.in & <https://tntenders.gov.in>.

DIPR/5552/TENDER/2023

SANATHNAGAR ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: 412, Floor-4, 17G, Vardhaman Chamber, Cawasji Patel Road, Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400 001
Tel.: 91.22.23024400 Fax: +91.22.23024550
Website: www.sanathnagar.in E-mail: Investors.SEL@lodhagroup.com

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended 30-Sep-23 (Unaudited)	30-Sep-22 (Unaudited)	30-Sep-23 (Unaudited)	31-Mar-23 (Audited)
1	Total Income from Operations	3.91	-	10.48	133.93
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(2.95)	(7.34)	(1.11)	(30.57)
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(2.95)	(7.34)	(1.11)	(30.57)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(2.95)	(6.20)	(1.11)	(30.57)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	(2.95)	(6.20)	(1.11)	(30.57)
6	Equity share capital (Face Value of ₹10 each)	315.00	315.00	315.00	315.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				(1,516.12)
8	Earnings Per Share (Face Value of ₹10 each) (not annualised) Basic and Diluted	(0.09)	(0.20)	(0.04)	(0.97)

NOTE
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.sanathnagar.in.

For and on behalf of the Board of Directors of Sanathnagar Enterprises Limited
Sanjayot Rangnekar
(Director)
DIN : 07128992
Place : Mumbai
Date : 11 October, 2023



NAVI AMC LIMITED

Registered Office: Vaishnavi Tech Square, 7th Floor, Iballur Village, Begur, Hobli, Bengaluru, Karnataka 560102
Tel: 080 45113444; Toll free no. 1800 103 8999
Website: <https://navi.com/mutual-fund> Email: mf@navi.com
CIN: U65990KA2009PLC165296

Notice No. 02 of 2023-24

NOTICE is hereby given to all unit holders of Navi Mutual Fund ("Fund") that in accordance with Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular dated May19, 2023, the half yearly portfolios of the schemes of the Fund as on September 30, 2023 has been hosted on the website of Navi AMC Limited (the AMC) viz. <https://navi.com/mutual-fund/downloads/portfolio> and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com.

Investors can request for physical or electronic copy of half yearly portfolios of the schemes of the Fund through any of the following means:

- Telephone: Give a call at our Contact Centre at 1800-103-8999
- Email: Send an email to mf@navi.com
- Letter: Submit a letter at the registered office of the AMC.

For Navi AMC Limited
(Investment Manager to Navi Mutual Fund)

Place: Bengaluru

Date: October 10, 2023.

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

UNICK FIX-A-FORM AND PRINTERS LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L25200GJ1993PLC019158

Registered Office: Block No. 472, Tajpur Road, Changodar, Tal. Sanand, Dist. Ahmedabad – 382 213, Gujarat, India.
Telephone: +91 9978931303/04 | Email: info@unickfix-a-form.com | Website: www.unickfix-a-form.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 14,26,100 (FOURTEEN LAKHS TWENTY-SIX THOUSAND ONE HUNDRED) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 26.0

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE



PLADA INFOTECH SERVICES LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Plada Infotech Services Private Limited" as a private limited company under the provision of Companies Act, 1956 pursuant to a Certificate of Incorporation dated October 23, 2010 bearing registration number 209364 issued by Registrar of Companies, Mumbai. Thereafter, our Company was converted into a Public Limited Company and consequently the name of our Company was changed from "Plada Infotech Services Private Limited" to "Plada Infotech Services Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated May 11, 2023 issued by the Registrar of Companies. The Corporate Identification Number of our Company is: U72900MH2010PLC209364. For further details please refer to section titled "History and Corporate Structure" beginning on page 150 of the Prospectus dated September 22, 2023, filed with Registrar of Companies (ROC).

Registered office and Corporate Office: Santosh A. Mishra Compound, Mograpada, Mogra Village, off. Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra - 400069 India.
Tel: +91 8976996702; E-mail: Abhishek.jain@pladainfotech.com; Website: https://pladainfotech.com/; CIN: U72900MH2010PLC209364; Contact Person: Mr. Abhishek Jain, Company Secretary and Compliance Officer



(Please scan this QR Code to view the RHP and Abridged Prospectus)

OUR PROMOTERS: MR. SHAILESH KUMAR DAMANI AND MR. ANILMAHENDRA KOTAK.
OUR COMPANY HAS FILED THE PROSPECTUS WITH THE ROC ON SEPTEMBER 23, 2023 AND THE TRADING WILL COMMENCE ON FRIDAY, OCTOBER 13, 2023.

THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY PROPOSED TO GET LISTED ON SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE EMERGE")

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 25,74,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF PLADA INFOTECH SERVICES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "PLADA" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 48/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹1,235.52 LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 1,29,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 48/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 61.92 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 24,45,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 48/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 1,173.60 LAKHS IS

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/-; THE ISSUE PRICE IS ₹ 48/- PER EQUITY SHARE;
THE ISSUE PRICE IS 4.8 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

Risk to Investors:

- Our failure to perform in accordance with the standards prescribed in our client contracts could result in loss of business or payment of liquidated damages.
- Uncertainty of Client Commitment and Potential Contract Termination.
- The merchant banker associated with this issue has handled only 4 public issues in the past out of which no issue has closed below issue price on listing date.
- Average cost of acquisition of the Promoters:

Sr. No.	Name	No. of Shares	Average Cost of Acquisition
1	Shailesh Kumar Damani	50,70,394	0.02
2	Anil Mahendra kotak	3,00,000	0.02

And the issue price is ₹48/- per equity share.

- the Price Earnings ratio based on diluted EPS for Fiscal 2023 for the Company is 12.31
- Weighted Average Return on Networth for Fiscal 2023, 2022 and 2021 is 25.28%
- The Weighted average cost of acquisition compared to issue price:

Types of Transaction	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Issue price* (i.e. ₹ 48)
WACA of Primary Issuance (excluding for shares issued pursuant to ESOP and bonus issue) (exceeding 5% of the pre issue fully diluted paid-up share capital during the 18 months preceding the date of Prospectus) in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.	NA	NA

Types of Transaction	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Issue price* (i.e. ₹ 48)
WACA of Secondary Sale/ acquisition (excluding gifts) (exceeding 5% of the pre issue fully diluted paid-up share capital during the 18 months preceding the date of Prospectus) in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.	11.50	48.00
Since there were no secondary transactions of equity shares of our Company during the 18 months preceding the date of filing of this Prospectus, which are equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of our Company, the information has been disclosed for price per share of our Company based on the last five secondary transactions where Promoters / promoter group entities having the right to nominate director(s) on our Board, are a party to the transaction, not older than three years prior to the date of filing of this Prospectus irrespective of the size of the transaction.	NA	NA

**Post adjustment of bonus shares

- This being the first Public Offer of our Company, there has been no formal market for the Equity Shares. The face value of the Equity Shares is ₹10/- each. The Issue Price of ₹48/- per equity share (determined and justified by our Company in consultation with the Lead Manager as stated in "Basis for Issue Price" on page 101 of this Prospectus) should not be considered to be indicative of the market price of the Equity Shares after the Equity Shares are listed. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the Equity Shares or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

ISSUE PERIOD

ISSUE OPENED ON: FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023

ISSUE CLOSED ON: THURSDAY, OCTOBER 05, 2023

PROPOSED LISTING: FRIDAY, OCTOBER 13, 2023

The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"/"NSE"), in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval letter dated September 21, 2023 from NSE for using its name in the Prospectus for listing of our shares on NSE EMERGE. It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of the NSE Emerge of NSE" on page 271 of the Prospectus. For the purpose of this issue, the Designated Stock Exchange will be the NSE. The trading is proposed to be commenced on or about October 13, 2023 (subject to receipt of listing and trading approval from the NSE).

All investors have participated in this issue through APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") process including through Unified Payment Interface ("UPI") mode (as applicable) in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs") / Sponsor Bank as the case may be.

TRACK RECORD OF THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER: THE MERCHANT BANKER ASSOCIATED WITH THE ISSUE HAS HANDLED 3 SME PUBLIC ISSUE AND 1 MAIN BOARD PUBLIC ISSUE IN THE PAST THREE YEARS.

The Issue was made through the Fixed Price Process, in terms of Rule 19 (2) (b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 and 253 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") wherein minimum 50% of the Issue was made available to Retail Individual Investors and remaining to Individual applicants other than retail individual investors; and Other investors including corporate bodies or institutions, irrespective of the number of specified securities applied for. All potential Applicants were required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective bank account (including UPI ID for RILs using UPI Mechanism), in which the corresponding Application Amounts were blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank, as applicable. For details, see "Issue Procedure" on page 287 of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to NSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the NSE. The trading is proposed to be commenced on or about October 13, 2023*.

*Subject to the receipt of listing and trading approval from the NSE.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue received 33,202 Applications for 13,93,23,000 Equity Shares (before rejections) resulting in 54.13 times subscription (including reserved portion of market maker). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under (before rejections):

Detail of the Applications Received (after bids not banked cases but before rejections):

The details of the applications received in the issue (before removing Valid and Multiple Rejections and Bids banked but not registered) are as follows:

Category	Number of Applications	Number of Equity Shares applied	Number of Equity Shares reserved as per Prospectus	Number of times subscribed
Retail Individual Investors*	30,170	9,05,10,000	12,22,500	74.04
Non-Retail Investors	3,031	4,86,84,000	12,22,500	39.82
Market Maker	1	1,29,000	1,29,000	1.00
TOTAL	33,202	13,93,23,000	25,74,000	54.13

*This includes 26 applications for 78,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

The details of applications rejected by the Registrar on grounds (including withdrawal) are detailed below:

Category	No. of applicants	No. of Equity Shares
Retail Individual Investors	628	18,84,000
Non-Institutional Bidders	51	3,72,000
Market Maker	-	-
TOTAL	679	22,56,000

After eliminating rejected applications, the following table gives us category wise net applications:

Category	Number of Applications	Number of Equity Shares applied	Number of Equity Shares reserved as per Prospectus	Number of times subscribed
Retail Individual Investors	29,542	8,86,26,000	12,22,500	72.50
Non-Institutional Bidders	2,980	4,83,12,000	12,22,500	39.52
Market Maker	1	1,29,000	1,29,000	1.00
TOTAL	32,523	13,70,67,000	25,74,000	53.25

In order to allocate equity shares on proportionate basis and in multiples of 3,000 Equity shares, the allocation to Retail Individual Investors has been increased to 15,84,000 equity shares. Accordingly, the allocation to Non-Retail Investors has been reduced to 8,61,000 equity shares.

As per Regulation 253 (2) of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended, as present issue is a fixed price issue, if retail individual investor category is entitled to more than fifty percent of the Issue size on proportionate basis, accordingly the retail individual investors shall be allocated that higher percentage.

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange - NSE on October 10, 2023

• Allocation to Market Maker (After Rejection & Withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹ 48/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed 1.0 time. The total number of shares allotted in this category is 1,29,000 Equity Shares to 1 successful applicant.

BASIS OF ALLOCATION - Market Maker

NAME OF THE COMPANY: Plada Infotech Services Limited													
Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1,29,000	1	100.00	1,29,000	100.00	1,29,000	1,29,000	1,29,000	1	100.00	1,29,000	100.00	0
GRAND TOTAL	1	100.00	1,29,000	100.00	1,29,000				1	100.00	1,29,000	100.00	0

• Allocation to Retail Individual Investors (After Rejections & Withdrawal): Allocation to the Retail Individual Investor (after rejections), at the Issue Price of ₹ 48/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category (based on proportionate basis) was subscribed by 55.95 times. The total number of shares allotted in this category is 15,84,000 Equity Shares to 528 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

BASIS OF ALLOCATION - RETAIL CATEGORY

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	3,000	29,542	100.00	8,86,26,000	100.00	15,84,000	53.62	3,000	1	56	528	100.00	15,84,000
GRAND TOTAL	29,542	100.00	8,86,26,000	100.00	15,84,000				528	100.00	15,84,000	100.00	0

• Allocation to Non-Institutional Investors (After Rejections): The Basis of Allotment to Non-Institutional Investors, at the issue price of ₹ 48/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 56.11 times. The total number of shares allotted in this category is 8,16,000 Equity Shares to 288 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

BASIS OF ALLOCATION - HNI CATEGORY

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	6000	2152	72.22	12912000	26.73	230113	106.93	3000	19	531	77	33.62	231000
2	9000	228	7.65	2052000	4.25	36570	160.39	3000	1	19	12	5.24	36000

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	12000	96	3.22	1152000	2.38	20531	213.86	3000	7	96	7	3.06	21000
4	15000	69	2.32	1035000	2.14	18445	267.32	3000	2	23	6	2.62	18000
5	18000	53	1.78	954000	1.97	17002	320.79	3000	6	53	6	2.62	18000
6	21000	111	3.73	2331000	4.82	41542	374.25	3000	14	111	14	6.11	42000
7	24000	42	1.41	1008000	2.09	17964	427.71	3000	1	7	6	2.62	18000
8	27000	19	0.64	513000	1.06	9142	481.21	3000	3	19	3	1.31	9000
9	30000	34	1.14	1020000	2.11	18178	534.65	3000	3	17	6	2.62	18000
10	33000	14	0.47	462000	0.96	8234	588.14	3000	3	14	3	1.31	9000
11	36000	7	0.23	252000	0.52	4491	641.57	3000	1	7	1	0.44	3000
12	39000	4	0.13	156000	0.32	2780	695	3000	1	4	1	0.44	3000
13	42000	19	0.64	798000	1.65	14222	748.53	3000	5	19	5	2.18	15000
14	45000	7	0.23	315000	0.65	5614	802	3000	2	7	2	0.87	6000
15	48000	10	0.34	480000	0.99	8554	855.4	3000	3	10	3	1.31	9000
16	51000	4	0.13	204000	0.42	3636	909	3000	1	4	1	0.44	3000
17	54000	3	0.10	162000	0.34	2887	962.33	3000	1	3	1	0.44	3000
18	60000	12	0.40	720000	1.49	12832	1069.33	3000	1	3	4	1.75	12000
19	63000	6	0.20	378000	0.78	6737	1122.83	3000	1	3	2	0.87	6000
20	66000	2	0.07	132000	0.27	2352	1176	3000	1	2	1	0.44	3000
21	69000	1	0.03	69000	0.14	1230	1230	3000	0	0	0	0.00	0
22	72000	2	0.07	144000	0.30	2566	1283	3000	1	2	1	0.44	3000
23	75000	6	0.20	450000	0.93	8020	1336.67	3000	1	2	3	1.31	9000
24	78000	1	0.03	78000	0.16	1390	1390	3000	0	0	0	0.00	0
25	81000	2	0.07	162000	0.34	2887	1443.5	3000	1	2	1	0.44	3000
26	84000	2	0.07	168000	0.35	2994	1497	3000	1	2	1	0.44	3000
27	87000	1	0.03	87000	0.18	1550	1550	3000	0	0	0	0.44	0
28	90000	6	0.20	540000	1.12	9624	1604	3000	1	2	3	1.31	9000
29	93000	1	0.03	93000	0.19	1657	1657	3000	1	1	1	0.44	3000
30	96000	2	0.07	192000	0.40	3422	1711	3000	1	2	1	0.44	3000
31	99000	1	0.03	99000	0.20	1764	1764	3000	1	1	1	0.44	3000
32	102000	1	0.03	102000	0.21	1818	1818	3000	1	1	1	0.44	3000
33	105000	4	0.13	420000	0.87	7485	1871.25	3000	1	2	2	0.87	6000
34	108000	1	0.03	108000	0.22	1925	1925	3000	1	1	1	0.44	3000
35	114000	2	0.07	228000	0.47	4063	2031.5	3000	1	2	1	0.44	3000
36	117000	3	0.10	351000	0.73	6255	2085	3000	2	3	2	0.87	6000
37	120000	6	0.20	720000	1.49	12832	2136.67	3000	2	3	4	1.75	12000
38	123000	2	0.07	246000	0.51	4384	2192	3000	1	2	1	0.44	3000
39	126000	4	0.13	504000	1.04	8982	2245.5	3000	3	4	3	1.31	9000
40	132000	1	0.03	132000	0.27	2352	2352	3000	1	1	1	0.44	



(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE)

PLADA INFOTECH SERVICES LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Plada Infotech Services Private Limited" as a private limited company under the provision of Companies Act, 1956 pursuant to a Certificate of Incorporation dated October 23, 2010 bearing registration number 209364 issued by Registrar of Companies, Mumbai. Thereafter, our Company was converted into a Public Limited Company and consequently the name of our Company was changed from "Plada Infotech Services Private Limited" to "Plada Infotech Services Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated May 11, 2023 issued by the Registrar of Companies. The Corporate Identification Number of our Company is: U72900MH2010PLC209364. For further details please refer to section titled "History and Corporate Structure" beginning on page 150 of the Prospectus dated September 22, 2023, filed with Registrar of Companies (ROC).

Registered office and Corporate Office: Santosh A. Mishra Compound, Mograpada, Mogra Village, off. Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra - 400069 India.
Tel: +91 8976996702; **E-mail:** Abhishek.jain@pladainfotech.com; **Website:** https://pladainfotech.com/; **CIN:** U72900MH2010PLC209364; **Contact Person:** Mr. Abhishek Jain, Company Secretary and Compliance Officer



(Please scan this QR Code to view the RHP and Abridged Prospectus)

OUR PROMOTERS: MR. SHAILESH KUMAR DAMANI AND MR. ANILMAHENDRA KOTAK.

OUR COMPANY HAS FILED THE PROSPECTUS WITH THE ROC ON SEPTEMBER 23, 2023 AND THE TRADING WILL COMMENCE ON FRIDAY, OCTOBER 13, 2023.

THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY PROPOSED TO GET LISTED ON SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE EMERGE")

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 25,74,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF PLADA INFOTECH SERVICES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "PLADA" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 48/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹1,235.52 LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 1,29,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹48/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 61.92 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 24,45,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 48/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 1,173.60 LAKHS IS

**THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/-; THE ISSUE PRICE IS ₹ 48/- PER EQUITY SHARE;
THE ISSUE PRICE IS 4.8 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.**

Risk to Investors:

- Our failure to perform in accordance with the standards prescribed in our client contracts could result in loss of business or payment of liquidated damages.
- Uncertainty of Client Commitment and Potential Contract Termination.
- The merchant banker associated with this issue has handled only 4 public issues in the past out of which no issue has closed below issue price on listing date.
- Average cost of acquisition of the Promoters:

Sr. No.	Name	No. of Shares	Average Cost of Acquisition
1	Shailesh Kumar Damani	50,70,394	0.02
2	Anil Mahendra kotak	3,00,000	0.02

And the issue price is ₹48/- per equity share.

5.the Price Earnings ratio based on diluted EPS for Fiscal 2023 for the Company is 12.31

6.Weighted Average Return on Networth for Fiscal 2023, 2022 and 2021 is 25.28%

7.The Weighted average cost of acquisition compared to issue price:

Types of Transaction	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Issue price* (i.e. ₹ 48)
WACA of Primary Issuance (excluding for shares issued pursuant to ESOP and bonus issue) (exceeding 5% of the pre issue fully diluted paid-up share capital during the 18 months preceding the date of Prospectus) in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.	NA	NA

Types of Transaction	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Issue price* (i.e. ₹ 48)
WACA of Secondary Sale/ acquisition (excluding gifts) (exceeding 5% of the pre issue fully diluted paid-up share capital during the 18 months preceding the date of Prospectus) in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.	11.50	48.00
Since there were no secondary transactions of equity shares of our Company during the 18 months preceding the date of filing of this Prospectus, which are equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of our Company, the information has been disclosed for price per share of our Company based on the last five secondary transactions where Promoters / promoter group entities having the right to nominate director(s) on our Board, are a party to the transaction, not older than three years prior to the date of filing of this Prospectus irrespective of the size of the transaction.	NA	NA

****Post adjustment of bonus shares**

- This being the first Public Offer of our Company, there has been no formal market for the Equity Shares. The face value of the Equity Shares is ₹10/- each. The Issue Price of ₹48/- per equity share (determined and justified by our Company in consultation with the Lead Manager as stated in "Basis for Issue Price" on page 101 of this Prospectus) should not be considered to be indicative of the market price of the Equity Shares after the Equity Shares are listed. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the Equity Shares or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

ISSUE PERIOD

ISSUE OPENED ON: FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023

ISSUE CLOSED ON: THURSDAY, OCTOBER 05, 2023

PROPOSED LISTING: FRIDAY, OCTOBER 13, 2023

The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"/"NSE"), in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval letter dated September 21, 2023 from NSE for using its name in the Prospectus for listing of our shares on NSE EMERGE. It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of the NSE Emerge of NSE" on page 271 of the Prospectus. For the purpose of this issue, the Designated Stock Exchange will be the NSE. The trading is proposed to be commenced on or about October 13, 2023 (subject to receipt of listing and trading approval from the NSE).

All investors have participated in this issue through APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") process including through Unified Payment Interface ("UPI") mode (as applicable) in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs") / Sponsor Bank as the case may be.

TRACK RECORD OF THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER: THE MERCHANT BANKER ASSOCIATED WITH THE ISSUE HAS HANDLED 3 SME PUBLIC ISSUE AND 1 MAIN BOARD PUBLIC ISSUE IN THE PAST THREE YEARS.

The Issue was made through the Fixed Price Process, in terms of Rule 19 (2) (b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 and 253 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") wherein minimum 50% of the Issue was made available to Retail Individual Investors and remaining to individual applicants other than retail individual investors; and Other investors including corporate bodies or institutions, irrespective of the number of specified securities applied for. All potential Applicants were required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective bank account (including UPI ID for RIs using UPI Mechanism), in which the corresponding Application Amounts were blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank, as applicable. For details, see "Issue Procedure" on page 287 of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to NSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the NSE. The trading is proposed to be commenced on or about October 13, 2023*.

*Subject to the receipt of listing and trading approval from the NSE.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue received 33,202 Applications for 13,93,23,000 Equity Shares (before rejections) resulting in 54.13 times subscription (including reserved portion of market maker). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under (before rejections):

Detail of the Applications Received (after bids not banked cases but before rejections):

The details of the applications received in the issue (before removing Valid and Multiple Rejections and Bids banked but not registered) are as follows:

Category	Number of Applications	Number of Equity Shares applied	Number of Equity Shares reserved as per Prospectus	Number of times subscribed
Retail Individual Investors*	30,170	9,05,10,000	12,22,500	74.04
Non-Retail Investors	3,031	4,86,84,000	12,22,500	39.82
Market Maker	1	1,29,000	1,29,000	1.00
TOTAL	33,202	13,93,23,000	25,74,000	54.13

*This includes 26 applications for 78,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

The details of applications rejected by the Registrar on grounds (including withdrawal) are detailed below:

Category	No. of applicants	No. of Equity Shares
Retail Individual Investors	628	18,84,000
Non-Institutional Bidders	51	3,72,000
Market Maker	-	-
TOTAL	679	22,56,000

After eliminating rejected applications, the following table gives us category wise net applications:

Category	Number of Applications	Number of Equity Shares applied	Number of Equity Shares reserved as per Prospectus	Number of times subscribed
Retail Individual Investors	29,542	8,86,26,000	12,22,500	72.50
Non-Institutional Bidders	2,980	4,83,12,000	12,22,500	39.52
Market Maker	1	1,29,000	1,29,000	1.00
TOTAL	32,523	13,70,67,000	25,74,000	53.25

In order to allocate equity shares on proportionate basis and in multiples of 3,000 Equity shares, the allocation to Retail Individual Investors has been increased to 15,84,000 equity shares. Accordingly, the allocation to Non-Retail Investors has been reduced to 8,61,000 equity shares.

As per Regulation 253 (2) of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended, as present issue is a fixed price issue, if retail individual investor category is entitled to more than fifty percent of the Issue size on proportionate basis, accordingly the retail individual investors shall be allocated that higher percentage.

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange – NSE on October 10, 2023

• **Allocation to Market Maker (After Rejection & Withdrawal):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹ 48/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed 1.0 time. The total number of shares allotted in this category is 1,29,000 Equity Shares to 1 successful applicant.

BASIS OF ALLOCATION - Market Maker

NAME OF THE COMPANY: Plada Infotech Services Limited													
Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applic ations received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1,29,000	1	100.00	1,29,000	100.00	1,29,000	1,29,000	1,29,000	1	1	1	100.00	1,29,000
GRAND TOTAL	1	100.00	100.00	1,29,000	100.00	1,29,000	1,29,000	1,29,000	1	100.00	1,29,000	100.00	0

• **Allocation to Retail Individual Investors (After Rejections & Withdrawal):** Allocation to the Retail Individual Investor (after rejections), at the Issue Price of ₹ 48/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category (based on proportionate basis) was subscribed by 55.95 times. The total number of shares allotted in this category is 15,84,000 Equity Shares to 528 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

BASIS OF ALLOCATION - RETAIL CATEGORY

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applic ations received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	3,000	29,542	100.00	8,86,26,000	100.00	15,84,000	53,62	3,000	1	56	528	100.00	15,84,000
GRAND TOTAL	29,542	100.00	100.00	8,86,26,000	100.00	15,84,000	53,62	3,000	1	56	528	100.00	15,84,000

• **Allocation to Non-Institutional Investors (After Rejections):** The Basis of Allotment to Non-Institutional Investors, at the issue price of ₹ 48/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 56.11 times. The total number of shares allotted in this category is 8,16,000 Equity Shares to 288 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

BASIS OF ALLOCATION - HNI CATEGORY

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applic ations received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	6000	2152	72.22	12912000	26.73	230113	106.93	3000	19	531	77	33.62	231000
2	9000	228	7.65	2052000	4.25	36570	160.39	3000	1	19	12	5.24	36000

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applic ations received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Propor tionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	12000	96	3.22	1152000	2.38	20531	213.86	3000	7	96	7	3.06	21000	2.44	469
4	15000	69	2.32	1035000	2.14	18445	267.32	3000	2	23	6	2.62	18000	2.09	-445
5	18000	53	1.78	954000	1.97	17002	320.79	3000	6	53	6	2.62	18000	2.09	998
6	21000	111	3.73	2331000	4.82	41542	374.25	3000	14	111	14	6.11	42000	4.87	458
7	24000	42	1.41	1008000	2.09	17964	427.71	3000	1	7	6	2.62	18000	2.09	36
8	27000	19	0.64	513000	1.06	9142	481.21	3000	3	19	3	1.31	9000	1.05	-142
9	30000	34	1.14	1020000	2.11	18178	534.65	3000	3	17	6	2.62	18000	2.09	-178
10	33000	14	0.47	462000	0.96	8234	588.14	3000	3	14	3	1.31	9000	1.05	766
11	36000	7	0.23	252000	0.52	4491	641.57	3000	1	7	1	0.44	3000	0.35	-1491
12	39000	4	0.13	156000	0.32	2780	695	3000	1	4	1	0.44	3000	0.35	220
13	42000	19	0.64	798000	1.65	14222	748.53	3000	5	19	5	2.18	15000	1.74	778
14	45000	7	0.23	315000	0.65	5614	802	3000	2	7	2	0.87	6000	0.70	386
15	48000	10	0.34	480000	0.99	8554	855.4	3000	3	10	3	1.31	9000	1.05	446
16	51000	4	0.13	204000	0.42	3636	909	3000	1	4	1	0.44	3000	0.35	-636
17	54000	3	0.10	162000	0.34	2887	962.33	3000	1	3	1	0.44	3000	0.35	113
18	60000	12	0.40	720000	1.49	12832	1069.33	3000	1	3	4	1.75	12000	1.39	-832
19	63000	6	0.20	378000	0.78	6737	1122.83	3000	1	3	2	0.87	6000	0.70	-737
20	66000	2	0.07	132000	0.27	2352	1176	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	648
21	69000	1	0.03	69000	0.14	1230	1230	3000	0	0	0	0.00	0	0.00	-1230
22	72000	2	0.07	144000	0.30	2566	1283	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	434
23	75000	6	0.20	450000	0.93	8020	1336.67	3000	1	2	3	1.31	9000	1.05	980
24	78000	1	0.03	78000	0.16	1390	1390	3000	0	0	0	0.00	0	0.00	-1390
25	81000	2	0.07	162000	0.34	2887	1443.5	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	113
26	84000	2	0.07	168000	0.35	2994	1497	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	6
27	87000	1	0.03	87000	0.18	1550	1550	3000	0	0	0	0.44	0	0.00	-1550
28	90000	6	0.20	540000	1.12	9624	1604	3000	1	2	3	1.31	9000	1.05	-624
29	93000	1	0.03	93000	0.19	1657	1657	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	1343
30	96000	2	0.07	192000	0.40	3422	1711	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	-422
31	99000	1	0.03	99000	0.20	1764	1764	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	1236
32	102000	1	0.03	102000	0.21	1818	1818	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	1182
33	105000	4	0.13	420000	0.87	7485	1871.25	3000	1	2	2	0.87	6000	0.70	-1485
34	108000	1	0.03	108000	0.22	1925	1925	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	1075
35	114000	2	0.07	228000	0.47	4063	2031.5	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	-1063
36	117000	3	0.10	351000	0.73	6255	2085	3000	2	3	2	0.87	6000	0.70	-255
37	120000	6	0.20	720000	1.49	12832	2138.67	3000	2	3	4	1.75	12000	1.39	-832
38	123000	2	0.07	246000	0.51	4384	2192	3000	1	2	1	0.44	3000	0.35	-1384
39	126000	4	0.13	504000	1.04	8982	2245.5	3000	3	4	3	1.31	9000	1.05	18
40	132000	1	0.03	132000	0.27	2352	2352	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	648
41	135000	1	0.03	135000	0.28	2406	2406	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	594
42	138000	2	0.07	276000	0.57	4919	2459.5	3000	1	1	2	0.87	6000	0.70	1081
43	141000	1	0.03	141000	0.29	2513	2513	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	487
44	147000	1	0.03	147000	0.30	2620	2620	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	380
45	150000	3	0.10	450000	0.93	8020	2673.33	3000	1	1	3	1.31	9000	1.05	980
46	153000	2	0.07	306000	0.63	5453	2726.5	3000	1	1	2	0.87	6000	0.70	547
47	156000	2	0.07	312000	0.65	5560	2780	3000	1	1	2	0.87	6000	0.70	440
48	165000	1	0.03	165000	0.34	2941	2941	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	59
49	171000	1	0.03	171000	0.35	3047	3048	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	-47
50	174000	2	0.07	348000	0.72	6202	3101	3000	1	1	2	0.87	6000	0.70	-202
51	177000	1	0.03	177000	0.37	3154	3154	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	-154
52	180000	1	0.03	180000	0.37	3208	3208	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	-208
53	186000	2	0.07	372000	0.77	6630	3315	3000	1	1	2	0.87	6000	0.70	-630
54	243000	1	0.03	243000	0.50	4331	4331	3000	1	1	1	0.44	3000	0.35	-1331
55	270000	2	0.07	540000	1.12	9624	4812	3000	1	1	2	0.87	6000	0.70	-3624
	270000		0.00		0.00			3000	1	2		0.00	3000	0.35	3000
56	300000	4	0.13	1200000	2.48	21386	5346.5	3000	1	1	4	1.75	12000	1.39	-9386
	300000		0.00		0.00			3000	3	4		0.00	9000	1.05	9000
57	315000	1	0.03	315000	0.65	5614	5614	6000	1	1	1	0.44	6000	0.70	386
58	330000	1	0.03	330000	0.68	5881	5881	6000	1	1	1	0.44	6000	0.70	119
59	456000	1	0.03	456000	0.94	8127	8127	9000	1	1	1	0.44	9000	1.05	873
60	483000	1	0.03	483000	1.00	8608	8608	9000	1	1	1	0.44	9000	1.05	392
61	600000	1	0.03	600000	1.24	10693	10693	12000	1	1	1	0.44	12000	1.39	1307
62	630000	1	0.03	630000	1.30	11228	11228	12000	1	1	1	0.44	12000	1.39	772

KVB Karur Vysya Bank
Smart the bank

अॅसेस रिक्लव्हि ब्रांच

२७६ / २८६, किलाबत रोड, काळवाडी येन रोड,
मुंबई - ४०००१३, महाराष्ट्र - ४००००२

फोन क्र.: ७७९१०००९५५,

ईमेल: headarbombai@kvbmail.com

स्थवार मिल्कटीच्या विक्रीकरिता विक्री सूचना

सिस्कुयुराटायझेमेन् अँड रिकलव्हन्ग ऑफ कायमान्यलिअल अँडेस् अँड एम्कोसॉर्दे ऑफ सिस्कुयुराटायझेमेन् अँड २००२ सहचालका सिस्कुयुराटायझेमेन् (एम्कोसॉर्दे) रुल्स १००२ च्या नियम १९(१) च्या प्राप्तुक्तान्वये स्थवार मध्याची विक्रीकरिता ई-लियावल वळी सूचना.

सरसांमापून जनाता आणि विषोपातः कर्जदारां आणि स्वीयांद यांना सूचना वाढवते देण्यात येते की, खालील वर्णिलेखी स्थवार मिल्कत ही तरात धरुणे, दी करूर वैश्य बँक लि. कडे महाण/प्रभातर आहे, जिचा अन्यविषय कळा दी करूर वैश्य बँक लि. च्या तरात धरुणेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यानी घेतला आहे ती कर्जदारा जी. मोतुलज रायचेंद्र प्रसाद वैश्य स. २०५, दुरगा माहल, पांडुरंग आरामटे, सेक्टर १२ही, कोपर खोरे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र ४००७०५ यावेकडून करूर वैश्य बँक लि. तरात धरुणेनी बदलीत ०५.१०.२०२३ रोजी स. २५,७५,५५,४०० (रुपये पंचवीस लाख पक्षांणीशी हजार पाचशे पंचचावदास मात्र) सह ०६.१०.२०२३ पासून त्यावरती व्याज आणि खर्चाच्या वसुलीसाठी ०६.११.२०२३ रोजी "जे आहे जैवे आहे", "जे आहे जे आहे" आणि "जे काही आहे तेथे आहे" तत्त्वाने विकण्यात येणार आहे.

स्थवार मिल्कटीचे वर्णन

एनबीसी ११२, १०४ पहात, हाडविल, टेलुककर प्राइड, सहजे स. ७१ (भाग), भोयर रोड, नाग नांविल्ली पैनावादी भाग थोमस चर्च जवळ, डांबविली पूर्व, ता. कल्याण, विल्हा तरात महाराष्ट्र ४२१३०२ येथील सर्व ते भाग आणि विभाग. भोजमापित ५०० चौ. फू. निष्ठापन क्षेत्र.

राखडी किमत	इ.आर	तोडी वाढविल्याचे मुल्य
₹. २०,००,०००/-	₹. २०,००,०००/-	₹. ५०,०००/-

विक्रीच्या अपिलिवार यांत आणि शर्तकारितांच्या आमची वेई तरात धरुणेनी वेईसाठी www.kvb.co.in/Property Under Auction च्या संकेतका सोदूंया लागू. तसेच आमच्या सेवा पुर्विउघडांतराचे वेब पोर्टल <https://kvb.auctiontender.net> ची. प्रथिम कुमार येठार, मोहार्सल ङ. ७७२२७७६८२८/ ६३२२६३८३४-०७९ ३०२२२४५/४४९/४८३, ई-मेल आयडी : praveen.thevar@gmail.com च्या सदमेंय त्यात.

सरकारी अँडर, २००२ च्या नियम १९(१) ने १५ दिवसांनी सांख्यिक सूचना

कर्जदारां मिधीय तरात लिलावाच्या तराखेव्ही तराखेव्ही आणि अत्रुपीने खाचांसह वरील नमूद थकावकी चुकती करण्यासाठी यागारे अभियंतिक्ष करणात येत आहे, सक्रे केल्वास परिशिष्ट मिल्कतीच्या लिलाव/विक्री करण्यात येईल आणि उदीरत थकावकी काही असल्यास व्याज आणि खाचांसह वसूल करण्यात येईल.

दिनांक: ११.१०.२०२३

ठिकाण: मुंबई

सही/-
प्रकृत उत्तर अधिकारी
दी करूर वैश्य बँक लि.

PUBLIC NOTICE

Notice is given to public at large that our client is intending to purchase the flat from Mr. Vikram Mukund Limaye and Mrs. Aparna Vikram Limaye being **Flat bearing no 1801** admeasuring **722.91 Sq. ft.** (carpet area) alongwith an additional area of about **251.12 Sq. ft.** appurtenant thereto on the **Eighteenth floor** of the Tower **72** of the building known as **"Crescent Bay"** together with 1 (one) tandem car park consisting of 2 car parking spaces bearing no **LG4-056A and LG4-056B at LG4** on the land bearing C. Nos. 655(Part), 654, 658 (Part), 659 (Part), 653(Part), 440 (Part), 437 (Part), 437 (Part), 645, 869, 870, 871 and C.S. No. 432 (part), 437 (part), 440 (part), 1437, 645, 646, 647, 648, 649, 650 and 854 of Parel Sewree Division and C.S. Nos. 1038, 1039, 1035, 155 (Part), 174 (Part), 176(Part), 1/177 (Part) and 185 (Part) of Dadar Naigaon Division in the Registration District Mumbai City situate at Jermal Wadia Road, Bhowpada, Parel, Mumbai-400 012 alongwith and ten (10) shares issued by the L&T Crescent Bay T2 Co-operative Housing Society Limited of the Society of Rs 50/- each bearing distinctive numbers 0921 to 0930 (all inclusive) in the Share Certificate number 093 ("Property").

Any company/bank(s)/ies including but not limited to an individual, Hindu Undivided Family, a firm, partnership, firm(s), financial institution(s), non-banking financial institution(s), a firm, limited liability partnership, an association of persons or a body of individuals whether incorporated or not, lender(s) and/or creditor(s) having any benefit, title, claim, objection, demand or right or interest whatsoever in respect of the Flat and/or any part thereof by way of inheritance, sale, transfer, share, mortgage, pledge, charge, lease, lien, license, assignment, tenancy, sub-tenancy, gift, exchange, encumbrance, lease, sub-lease, family arrangement/settlement, bequest, succession, maintenance, easement, occupation, trust, possession, family, decree or order of any court of law, contracts/agreements, development rights, partnership, right of way, his pendens, arrangements, reservation, contracts/agreements, allotment letter issued in respect of the Flat, memorandum of understanding, letter of intent/head of terms, agreement for sale, power of attorney, option, right of first refusal, pre-emption or any liability or any commitment or otherwise of whatsoever nature are hereby deemed to be ultimate the same in writing alongwith documentary evidence by which such right is claimed to be the undersigned at the address mentioned herebelow within 14 days from the date of publication of present notice of such claim, if any, failing which they shall be deemed to have been given up such claims and such claims will not be enforceable/binding and shall be deemed to have been waived and/or abandoned in respect of the Flat.


THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

Flat bearing no 1801 admeasuring **722.91 Sq. ft.** (carpet area) alongwith an additional area of about **251.12 Sq. ft.** appurtenant thereto on the **Eighteenth floor** of the Tower **72** of the building known as **"Crescent Bay"** together with 1 (one) tandem car park consisting of 2 car parking spaces bearing no **LG4-056A and LG4-056B at LG4**, on the land bearing C. Nos. 655(Part), 654, 658 (Part), 659 (Part), 653(Part), 440 (Part), 437 (Part), 645, 869, 870, 871 and C.S. No. 432 (part), 437 (part), 440 (part), 1437, 645, 646, 647 (Part), 648, 649, 650 and 854 of Parel Sewree Division and C.S. Nos. 1038, 1039, 155 (Part), 174 (Part), 176(Part), 1/177 (Part) and 185 (Part) of Dadar Naigaon Division in the Registration District Mumbai City situate at Jermal Wadia Road, Bhowpada, Parel, Mumbai-400 012

I. V. Merchant & Co.
Advocates & Solicitors
Partner
Dimple Merchant

Place: Mumbai.
Date: 12-10-2023

62/63, 5th Floor, All Chambers, Naingdas Master Road, Fort, Mumbai - 400 001

<div> <div>HDB Financial Services Limited</div> <div>  <div> <div>HDB</div> <div>FINANCIAL SERVICES</div> </div> </div> </div>		<div> <div>तल मजला, सेनेय हाऊस, केसावय खाद्ये मार्ग, महासंस्थी, मुंबई-४०००२३</div> <div>फोन क्र.: +९१ २२ ४११६६३००</div> </div>		
<div> <div>सोन्याच्या दागिन्यांसाठी अंतिम लिलाव न विक्री सूचना</div> <div> <div>श्रीवोशेत: कर्जदारा (येथे खाती) कोष्टकत ज्यांचे तपशील दिले आहेत ते) आणि सर्वसाधारण जनतेला</div> <div>बादपूर कर्जाविरुद्ध येते की, खालील नमुद कर्ज खाते प्रदानासाठी वकीत आहे आणि कर्जदारांनी</div> <div>स्वीकारलेल्या/स्वीकार्य केलेल्या खालील कर्जांच्या संघीय पंडीतले दर्तावले जाणारे) (असे दर्तावले जाऊ</div> <div>एकवित उड्डेव "कर्ज काढणे") त्याची/तिची/त्याची बकाची भागवित्यावरील कर्जदारांना विक्ती</div> <div>कारणाने पुरवली) फावणिविरुद्ध सव्हिस्स लिमिटेड ("कंपनी") ने पाठविलेल्या पत्रव्यवहार व</div> <div>संघर्षाचे कदमदार/घाटा घ्यावताना पालत केले नाही/त्याच प्रतिसाद दिलेला नाही आणि म्हणून त्याच्या</div> <div>खातीचा भंग केला. कंपनीने तारावारणीत विला अधिकार वावरून, तारावारण अमंकीतवाचारी कायद्याचे</div> <div>दखले आणि म्हणून नवक कर्जदाराकडून येणे असलेल्या बकाचीविरुद्ध वसुली/रोकड</div> <div>करपावतीसाठी ते विषयवर्षाच्या कारणास्तव कसासाठी बँकेकडे गहाण म्हणून तारत ठेवलेल्या</div> <div>सोन्याच्या दागिन्यांचा जहाील विलावर कार्याच्या वेळीस, लिलाव खालील कोष्टकामधील नमुद शाहेत</div> <div>आणि तारखेस स. ११.०० च्या. पावून पुरविलेली फावणिविरुद्ध सव्हिस्स लिमिटेडच्या खालील नमुद</div> <div>स्वीकृत शाहेत १०-१०-२०२३ रोजी करणत येईल.</div> </div> </div>				
कर्ज क्र.	प्राश्नाचे नाव	कर्जाची तारीख	काहीकाही राकम रु.	शाखेचे नाव
२०१७८६२७	पील मरुतिया लॉन्गवै	१३/१२/२०२१	८३००	अमरावली
२०१७८६२८	आणिम श्रिमतानायाय शेख	२२/०७/२०२२	२८०००	अमरावली
२४४२३१७७८	आणिम सुंदर मोहोद	१५/०५/२०२३	१७७८३	अमरावली
२४४२३१७९	अमित भावतार आवतले	१८/०२/२०२१	२४५५	चंद्रपूर
२४४२३१८३	सुरज तुकाणाम आताम	०८/०१/२०२३	१९९३	चंद्रपूर
२४४२३२३९	मंजुश्री जैलेश पांरकर	२३/०३/२०२३	६९१८	चंद्रपूर
२४४२३२४०	जयन शिवा बावडे	१५/०५/२०२३	११४२०	गोंया
२०१७८६२३८	किमत बावगोणी पारीत	२२/०८/२०२२	१४२००	इस्फाचोरी
२०११६६८७८	मोहम्मदजैद फिरोजखान कुजेशी	०९/१२/२०२१	६२५९	मुंबई-चेंबूर
२४४०००८२७	जयन शेख	१८/०७/२०२२	२४६८२	मुंबई-ठाणेपारकर
२४४००६८४	शुभम नरसिंहमहे मेहरे	२४/०१/२०२२	२६४५०	पुणे-हडसर संघ
२४०८२७७९१	अंजली प्रणि अंसेर	१०/११/२०२२	७२७७	सांगली
<div> <div>लिलाव "जसे आहे असे आहे" आणि "जसे आहे जसे आहे" तत्तवेने होतल व कंपनी सारक्या</div> <div>दागिन्यांच्या दर्जा, शुध्दता, वजन, कॅरेटज विका मूल्यांकनानावात काहीही माहिती काला देत नाही सोय</div> <div>नाही. त्याच्या बोली सारक्यापुर्वी दर्ज सोयच्या दागिन्यांच्या दर्जा, शुध्दता, वजन विका</div> <div>मूल्यांकनानावात वजन, पाण्याची, पडताळणी, स्वतःची/काही कायणी जबाबदारी सोयला खोदीदाराची</div> <div>असे आणि त्यासाठी लिलावाच्या निघातले वेळेअशी ४५ मिनिटे तळांच्या सत्यच्या सत्यसावित्याव</div> <div>दिलेले पत्रव्यव सोयच्या दागिन्यांचे संभाव्य खर्चापुर्वी घ्यावलेल्या स्व्याच्या बाब आणि पत्रव्यवने परीक्षण</div> <div>संदर्भत, येतल. सर्व बोली ह्या संवगत बँकेकडून सुरु समजल्या जाणा किमतीन राखिल किमतीच्या अर्धन</div> <div>असतल. लिलाव प्रक्रिया आणि आर लिलावाच्या अर्धनाने केली (झाल्या) कंपनीकडून स्व्याच्या स्वतःच्या</div> <div>माबरी लावण्या जाणा पुढील अर्धने व सर्वांच्या जाणा पुढील अर्धने</div> <div>सारी कर्जदारांनी सारणाने लिलावापुर्वी त्यांच्या वेविकि कर्ज खात्या कर्ज काराव्या अर्धनाने</div> <div>कंपनीला ते देतल आतली संपूर्ण वजन प्रदम केती न वरत कर्ज सुविधा कारणा तारा दागिन्यांची</div> <div>मूलीय सुव्हेचित्याव बँकेकडून दर्ज लिलावातवत नु येणाय वेलत. घुष्या ध्यानात येती की, कोणत्याही</div> <div>पुर्वव्यवहारात आणि कोणत्याही कारण न देत लिलाव प्रक्रिया घुडे करणारे किंवा वर करणे आणि कोणत्याही कारण</div> <div>न देत कोणत्याही किमती सर्व बोली फेटाळणे ह्याचे निर्विवाद स्व्याचा अधिकार कंपनीचे प्राप्कृत अधिकारी</div> <div>असलेल्या निमन्यावकारीकारणा आहेत.</div> </div>				
<div> <div>ठिकाण: महाराष्ट्र</div> <div>दिनांक: ११-१०-२०२३</div> </div>		<div> <div>प्राधिकृत अधिकारी</div> <div>(एचडीबी फायनान्सियल सव्हिस्स लि.)</div> </div>		

पेगासस अँसेट्स रिस्कन्स्ट्रान प्रायव्हेट लिमिटेड
५५-५६, ५८ मजला, ११२ रस्त हाऊस, नवसर्ग, मुंबई-४०००११.
फोन : ९१२-२२६१८८७००

जोडपत्र IV नियम ८(१)

कच्चा सूचना (स्थायि मिळतीकरीता)

ज्याअर्ची, पेगासस अँसेट्स रिस्कन्स्ट्रान प्रा. लि.(पेगासस) च्या प्राधिकृत अधिकार्यांनी सिब्सुरीटायपेडेशन अँड रिस्कन्स्ट्रान ऑफ फायनान्सिअल अँसेट्स अँड एफोर्समेंट ऑफ सिन्सुरिटी इंटरेस्ट अँड, २००२ (सरकरी अँड) च्या कलम ११(१) ह्याबाबतीत सिब्सुरीटी इंटरेस्ट (एफोर्समेंट) कलम, २००२ च्या कलम ३१ अन्वये दिवक ११/०७/२०१२ रोजीची मागणी पोसास जारी करून जमनेवर **वह-कर्जदार/गाहणदार री. प्रदीप गुण्डुणा गोरी** आणि सौ विजयलक्ष्मी गोरी यांच्या सूचना नुसार नवतु करपाच्यो आलेल्या १०/०७/२०१२ रोजीचो अनुसार खमर क. १,५५,६५,९६८.८४/- (पंचपे एक कोटी सत्तावय लाख पायश हजार सत्तास अठ्ठस आण पैशे चौऱ्यांणीणी आस) यास दिवक ११/०७/२०१२ ताब्यावरीत तुल्यवरीत तुल्यी सांगावळिचें द्याये त्याच पार्लयच, प्रमार आणि खर्च या क्वाकीन पोरतकेंदर दाद सूचनेच्या प्राप्तीच्या ताखेमुखीन ६० दिवसांत कल्पिनाच्यो सांगिल्ले तलेय.

त्यानंतर, दाद करपादार/वह-कर्जदार/गाहणदारांचे क्वाकाळी यासह त्याअंतर्गत येणारे सारा हिस्सयेंतचे पेगासस अँसेट्स रिस्कन्स्ट्रान प्रायव्हेट लिमिटेड, र. ये. सपेकीनी अँडच्या तसदुदीये दिवक ३१.०३.२०११ रोजीच्या अर्हितावळेंतक कपाददारे पोसास मुय नई नाईन टूट-१(पेगासस) यांचे दूदरी म्हणून त्यांच्या क्षमतेत कार्यरत असुत त्यांच्या नावे अर्हितासफाक्त केले.

कपेकीने पोरतकेंदर करपाच्यो कदादो असयच्यो दिवसाचो, समन्यानीअत. मुख्य महानगर डंडाधिकारी, मुंबई समक्ष सरकरी अँडच्या कलम ११४ अन्वये अर्चें टाब्याल केलो. पुशे ११/०७/२०१२ दिवाकीत आदेशादारे समन्यानीनी सोडेपय, ज्योनी पोनेतले केलो क्वाफिशियर अँडर विजय लक्ष्मण हिंनो याचो खालती ड्युडिंत प्रमाण प्रत्यक्ष क्वाळीच्यो येणारेचो आदेश दिवो आसा. पेगासस अँसेट्स रिस्कन्स्ट्रान प्रा. लि. (पेगासस) च्या प्राधिकृत अधिकारी याचो मुय करपाचत आसा.

कलम निशेच्या अनुषंगानाच ज्योनी नवतु दिवकप्राप्तीच्या ताबा येतना आणि सदर ०१.०७.२०१२ रोजी पोसास प्राधिकृत अधिकारीकडे पुरवुन केला.

सदर अनुषंगान क्वाकीनी पोरतकेंदर करपाचत कपाददर असयचें उरल्याचें. यादूदो कदादो/वह-कर्जदार/गाहणदार आणि सर्वसामान्य जनेस सूचना देणाय येते की, प्राधिकृत अधिकार्यांनी खाली कर्णले केल्याचो मिळतीकरी कच्चा त्यान सर अँडच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (५) ह्याबाबतीत सिब्सुरिटी इंटरेस्ट एफोर्समेंट कलम, २००२च्या नियम ८ अन्वये प्राप्ति अफिकादारांचो यास करून दिवक ०१.०७.२०१२ रोजी घेतलो.

घेणारे, कर्जदार/वह-कर्जदार/गाहणदार आणि सर्वसामान्य जनेस यादूदो इशारा देणाय येतलो की, उक मिळतीकरी व्यवहार कळ येव त सर अँडच्या कलम ११,५५,६५,९६८.८४/- (पंचपे एक कोटी सत्तावय लाख पायश हजार सत्तास अठ्ठस आण पैशे चौऱ्यांणीणी आस) यास दिवक ११/०७/२०१२ रोजीपोसास तुल्यवरीत तुल्यी सांगावळिचें द्याये तसोय व्हाज सर त्यावरीत उपाजिंत पार्लयच, प्रमार आणि खर्च या क्वाकेंच्या मागणीअर्चीत राहिल.

ताम्पेच्या मागणीअर्चीत राहिल.

पेगासस अँसेट्स रिस्कन्स्ट्रान प्रायव्हेट लिमिटेड अँडच्या कलम १३ चे पोट-कलम (८) च्या तसदुदी अन्वये कर्जदारांचे लक्ष वेधणाय येत आहे.

स्थायर मिळतीकरीचे यणन

माव मागणेचो, तालुका बाँरिस्ली-४०० ०६६ च्या सीटीएस क.१०(भाग), ११(भाग), ११(भाग), ११(भाग), ११(भाग) व ११६(भाग) यासयानि बाँकमिळीत तसतादुडीत, १५५(भाग) वूच, मुय ४००००६६ येचे स्थित द डिक्लेअरी सीटायस लि. अमा ज्ञात इमार्तीतीत, इमार्त कळ. ८.मोजांपातीत २६५ कि.चु फिउट अय क्षेत्र या मजला, निवासी फ्लॅट क. ८०० येचे सर्व माव व भविमा.

प्राधिकृत अधिकारी

पेगासस अँसेट्स रिस्कन्स्ट्रान प्रायव्हेट लिमिटेड
पेगासस मुय नई नाईन टूट-१
चे दूदरीच्या क्षमतेत कार्यरत

State Bank of India

दि इंटर्नॅशनल बिल्डिंग, दबा मजला, ६४, महर्षी कनेज रोड, चर्चगेरी, मुंबई-४०० ०२०.
दूर. क्र.: ०२२-२२०५३१६३/६४/६५, **ईमेल:** sbi.05168@sbi.co.in

सरफैसी अँक्ट, २००२ च्या कलम १३ (४) अन्वये मिळकतीच्या सांकेतिक कब्जासंदर्भात सूचनेचे प्रकाशन

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, सिस्चुरिटायझेड अँड रिस्कन्ट्रान ऑफ फायनान्शियल असेट्स् अँड एम्पोसिमेंट ऑफ सिस्चुरिटी इंटेस्ट अँक्ट, २००२ (५४ सन २००२) अन्वये सिस्चुरिटी इंटेस्ट (एम्पोसिमेंट) रूल्स २००२ च्या नियम ९ सहवाचता कलम १३(१२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा वापर करून सदरहू सूचना प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांत रक्कम अदा करण्यासाठी त्यांना बोलाविल्याविरावीत याबत नमुद आणि प्रत्येक खात्यासमोर नमुद तारखेची मागणी सूचना जारी करण्यात आली होती.

सदरहू कर्जदारांनी रक्कम अदा करण्यास कसू केलेली आहे म्हणून कर्जदार आणि सर्वसामाजिकांना सूचना याद्वारे देण्यात येते की, निम्नस्थाखरीकारांनी प्रत्येक खात्यासमोर नमुद केलेल्या तारखेस सदरहू अँक्टच्या नियम ९ सहवाचता सदरहू अधिनियमाच्या कलम १३(४) अन्वये त्याला/त्याला प्राप्त केलेल्या अधिकाऱ्याचा वापर करून येथील छाह्याली वर्णिलेल्या मिळकतीच्या सांकेतिक कब्जा घेतलेला आहे.

विशेषतः कर्जदार आणि सर्वसामाजक जनतेला याद्वारे सावधान करण्यात येते की, सदरहू मिळकतीच्या देवघेवीचा व्यवहार करू नये आणि सदरहू मिळकतीच्या देवघेवीचा कोणताही व्यवहार हा स्टॅट बँक ऑफ इंडियाच्या (रकम अदा आणि त्यावरील व्याजाच्या प्रभाराच्या अधीन राहिल.

ताराण मतेच्या भरण्याकडिता उपलब्ध वेळेच्या संदर्भात अँक्टच्या कलम १३ च्या पोटकलम (८) च्या ततुदीकडे कर्जदार/हमीदारांचे लक्ष वेधून घेतले जात आहे.

कर्जदाराचे नाव आणि पत्ता	मिळकतीच्या मालकाचे नाव	गहाण/प्रभातर मिळकतीचे वर्णन	मागणी सूचनेची तारीख	सांकेतिक कब्जाची तारीख	श्रकबाकी रकम
श्री. अंबर पोपट गेटे पत्ता: खोली क्र. १५५, लोकमान्य चालू कमीटी क्र. १, वाडारणाल रोड क्र. १, कांदिवली पूर्व, मुंबई ४०००१०.	श्री. अंबर पोपट गेटे	श्री. अंबर पोपट गेटे यांच्या मालकीचे गावा मालाड (पूर्व), तालुका मालाड (बोरिवली), मुंबई ४०००१७ येथे स्थित आणि बांधलेले सेटिंग आश्रय नावे जात प्रस्तावित रिहायसीत आणि कर्मिअंश आश्रय क्र. २ येथे ३ रा मलब्यावर अपार्टमेंट क्र. ३०९, जिचे रा चटई क्षेत्र ५६.७९ चौ.मीटर्स म्हणजेच १७० चौरस फूट टाईप स्टुडिओ.	३१.०७.२०२३	११.१०.२०२३	₹. ११,१०.२०२३ रोजीस ₹. २९,१५,५२६.०० (रुपये) एकोजीस लाख आठ हजार पाचशे सव्वीस साठ) अंकिंक व्यावृत्तील पुढील व्याज आणि परितवय

दिनांक: ११.१०.२०२३

दिक्कण: मुंबई

सही/-

प्राधिकृत अधिकारी



यूनिन बँक ऑफ इंडिया
Credit Recovery and Legal Service Department

क्षेत्रीय कार्यालय : दि कॅपीटल बिल्डींग, पहिला मजला,
कुलकर्णी गार्डन समोर, शरणपूर रोड, नाशिक-४२२००५.
दूरध्वनी क. (०२५३२) २३१७७७१

स्थायी मालमत्तेचा विक्रीसाठी विक्री मुचना

CREDIT RECOVERY AND LEGAL SERVICE DEPARTMENT

सिस्कुयुरी इंडस्ट्रीज (एम्फोर्मेट) कल्स, २००२ चे नियम ८(६) सह बाबते जाणारे सिस्कुयुरिटायवेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स् अँड एम्फोर्मेट ऑफ सिस्कुयुरी इंडस्ट्रीज अँड, २००२, नमून अचल मालमत्तेच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव विक्री मुचना.

तुमचा जनेते आणि विशेषतः कर्जदार व जामिंदार यांना यादुरी सुचित करण्यात येते की, सिस्कुयुरी अँड रेस्ट्रक्चर म्हणजेच **यूनिन बँक ऑफ इंडिया** यांचेकडील तारा/बोजा असलेली खालील नमुद अचल मालमत्ता ज्याचा **प्रतिकारक/ग्युअन्स** नमून युनिन बँक ऑफ इंडिया अफिकन अधिकाारी यांनी घेतला आहे, सरकारी मालमत्ता खाली दिल्यानुसार 'जमी आहे तशी' 'जी काय आहे ती' आणि 'जी काय ते आहे ती' या तत्वावर **यूनिन बँक ऑफ इंडिया** सिस्कुयुरी अँड रेस्ट्रक्चर खालीलप्रमाणे व्याजासह यमुनीसाठी युनिन बँक ऑफ इंडिया यांनी दि. २७.१०.२०२३ रोजी विक्रीस काढलेली आहे. मालमत्तेचा तपशील, राखीव किंमत, अनामत देव व फस, खालीलप्रमाणे आहे.

शाखा	कर्जदार, सर्व-जबाबदार व जामिंदारांचे नाव	विक्रया जाणाय्या स्थायर सुस्थित मालमत्तेचा तपशील	ताबा प्रकार	राखीव किंमत	अनामत देव रक्कम	थकवाकी रक्कम
मालेगांव शाखा	क. श्री. शिवदास हरिधाऊ अहि जामिंदार र. रूपाली शिवदास अहि	दुसरा मजला, युनिट नं. ७, ओमसाई पार्क, बांधीव ओव्हर प्लॉट नं.२+३, मालेगांव कॅम्प, मालेगांव पिन-४२३२०३. क्षेत्र ५१.३० एक:मी. येथील मालमत्तेचा सर्व भाग चतु:सिमा: उत्तरे- रोड, दक्षिणेस- प्लॉट नं.४७, पुर्वेस- प्लॉट नं.३१, पश्चिमेस- प्लॉट नं.४१	प्रतिकारक ताबा	Rs. 24,50,000/-	2,45,000/-	Rs. 22,92,347.21/- २७.०९.२०२१ रोजी पुढील व्याज, खर्च व खावसाह
दिवाली नगर शाखा	कर्जदार- श्री. सिद्धीकी अहमद शब्थी- सिद्धीकी व सौ. इरफाना खातून	प्लॉट नं.६, पहिला मजला, ए विंग, मदार अपार्टमेंट, प्लॉट नं. २, स.नं.६७/१३, दादमाई लॉन्सच्या मागे, वडला, नाशिक चतु:सिमा: उत्तरेस- प्लॉट नं.०४, विंग बी, दक्षिणेस- प्लॉट नं.०५, विंग ए, पुर्वेस- जिना, पश्चिमेस- प्लॉट नं.०९	प्रत्यक्ष ताबा	Rs. 13,10,000/-	1,31,000/-	रु. 14,71,760/- 30/06/2023 रोजी आणि त्यावरील पुढील व्याज

सिस्कुयुरी कॅडिटला माहिती असल्यास बोजाचा तपशील: NA

लिलाव देव रक्कम जमा करण्याची अंतिम तारीख: २६.१०.२०२३ रोजी किंवा त्यापुर्वी संस्थाकाडी ५ चा अनामतावरी तो तारीख व वेळ : २७.१०.२०२३, दुसरी १२ ते ५ (१० मिनिट अम्यादीत अंती एक्स्टेंशनसह)

विक्रीसाठीच्या सिव्स्तर अटी व शर्तीसाठी कृपया वेबसाईटवर दिलेल्या लिंकचा वापर करा. www.unionbankofindia.co.in किंवा <https://www.ibapi.in> लिंकचा वापर करा.

नोंदणी, लॉगिन आणि बिडींग नियमांसाठी <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> भेट द्या.

दिनांक : ०६.१०.२०२३
ठिकाण : नाशिक

(दिप : स्वेर भाषांतर, तमाजव असल्यास मूळ इंग्रजी भाषा)

[illegible]


...continued from previous page.

[illegible]

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at website: www.bigshareonline.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole Applicant Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares applied for, Applicant DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Application Form, address of the Applicant, the name and address of the Designated Intermediary where the Application Form was submitted by the Applicant and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:



BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Address: S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, next to Ahura Centre, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India

Tel No.: +91 – 22 – 6263 8200; **Fax No.:** +91 – 22 – 6263 8299; **E-mail:** ipo@bigshareonline.com; **Investor Grievance Email:** investor@bigshareonline.com;

Website: www.bigshareonline.com; **CIN:** U09090MH1904PTC076534; **SFRI Registration No:** INR000001385; **Contact Person:** Mr. Vinayak Morhale

On behalf of Board of Directors
Plada Infotech Services Limited
 Sd/-
Shailesh Kumar Damani
 Managing Director

Place: Mumbai
Date: October 11, 2023

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF PLADA INFOTECH SERVICES LIMITED.

Disclaimer: Plada Infotech Services Limited has filed the Prospectus with the RoC on September 23, 2023 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Prospectus is available on the website of SME Platform of NSE at <https://www.nseindia.com/> and on the websites of the Lead Manager, Indorient Financial Services Limited at www.indorient.in. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" beginning on page 25 of the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.